

SOM DATT FINANCE CORPORATION LTD.

CIN :L65921DL1993PLC377542

Date: 18.05.2023

BSE Ltd.
Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street
MUMBAI — 400 001
(Scrip Code: **511571**)

Sub.: Newspaper Advertisement-Regulation 47 of the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

Dear Sir

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the Financial Results of the Company for Quarter and Year ended on 31st March, 2023 published in newspapers Financial Express (English Edition all India) and Jansatta(Hindi- Delhi Edition).

You are requested to take the same on record.

Thanking You

Yours Truly

For **Som Datt Finance Corporation Limited**

Simran Malhotra
Digitally signed
by Simran
Malhotra
Date:
2023.05.18
12:48:36 +05'30'

Simran Malhotra
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.:As above

वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व का मैसर्स धरमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : नंबर 5बीसी-110, बरौन्डी, आउटर रिंग रोड, सॉलिव गेड, गैंगवाली रोड, एकात्मिकी आउटर, किराना नगर, शिलाहाबाद-500043, वेबसाइट www.varthana.com, ई-मेल : care@varthana.com, फोन नंबर-08458577, बैंक का कॉल नंबर : 1162 एच 1163, टॉल फ्री नं. 1101 नॉनल, सेज, डेक पार्क, सेक्टर 49, सोहन गेड, पृथ्वी-122018

कच्चा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत मैसर्स वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का मैसर्स धरमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) गुरुग्राम शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं से ऋण खाता सं. **K19GUR-GUR-009873, S19GUR-GUR-009575** तथा **U22GUR-GUR-021844** में 1) मैसर्स विद्या दीप पब्लिक स्कूल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) मैसर्स विद्या दीप शिक्षा समिति, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, नंबर 1 और 2 का कार्यालय : सी 400/ए, मेन मार्केट, भजनपुरा दिल्ली - 110053, 3) श्री गिरीश बंसल, पुत्र ध्यानचंद, 4) श्रीमती उषा, पत्नी गिरीश बंसल, नंबर 3 और 4 का पता : मकान नंबर बी-388/ए, स्ट्रीट-18, वीडोपीएस के पास, भजनपुरा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली - 110053 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक सूचना में उल्लिखित 06.03.2023 तक राशि रु. 68,51,070/- (रुपये अड़सठ लाख इस्वावन हजार सतर मात्र) तथा मांग सूचना में उल्लिखित सहमत अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 08.03.2023 जारी की थी।

हालांकि, यहां ऊपर उल्लिखित आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं द्वारा ब्याज/अन्य प्रभारों सहित पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफल होने के कारण, एतद्वारा आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसने 17 मई, 2023 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने को चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार 06.03.2023 तक राशि रु. 68,51,070/- (रुपये अड़सठ लाख इस्वावन हजार सतर मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक उपर्युक्त सहमत अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम के प्रभार के अधधीन होगा। प्रतिभूत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं का ध्यान धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण : संपत्ति संख्या-सी400, खसरा नंबर 362 का हिस्सा, भजनपुरा गांव, आबादी मेन मार्केट घोडा, गुर्जरान खादर, इलाका, शाहदरा, दिल्ली 110053 का समस्त भाग, माप 120 वर्ग गज, सीमाएं : पूर्व: दूसरों की संपत्ति, पश्चिम द्वारा: सड़क द्वारा, उत्तर द्वारा: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण द्वारा: पूर्व: दूसरों की संपत्ति।

दिनांक: 18.05.2023 स्थान : भजनपुरा अधिकृत अधिकारी, क/वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक, तनाव्यस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-1
12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, (एस्टेटी विलिडिंग), 1 टॉल्लेज मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23701070, 23701097, 23701157, 23701167, 23701195, फैक्स : 23701202, ई-मेल: team3amb1.del@sbci.co.in, sbi.04109@sbci.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति दृष्टिकर्ता / प्रभारित और अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का भौतिक कच्चा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जहाँ है", जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदार(रों), गारंटर(रों) और कॉर्पोरेट गारंटर(रों) से प्रतिभूत लेनदारों की नीचे वर्णित रूप की कच्चा राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूप में होगी।

| कर्जदार(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) का नाम पता/पते सहित | नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता | आरक्षित मूल्य | मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि | सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम | बोली आवेदन पत्र, केवाईसी दर्तावेजें, पेन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और बरोहर राशि MSTC Wallet के माध्यम से | ई-नीलामी की तिथि / समय 10 निमट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | बरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि | | | | |
| मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि. (कोर्पोरेट अधिकारी: 8वां तल, पारस डॉचम टॉउन सेक्टर, रीक्टर-53, गोलक कॉरॉर रोड, गुडगाँव-122002 (हरियाणा) मैसर्स डीबीएस डीएसटीएल प्रा. लि. 321-ए, तीसरी मंजिल, एलएससी, पॉकेट-6, लिविंग स्ट्रीट/मैल मेन कालिंदी कुंज रोड, जसोला, दिल्ली-110025 श्री वीद नारायण कुचक, (निदेशक/गारंटर, मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि.), 201, स्वयंभर टॉवर, मैसर्स रोड, अलीगढ़ - 202001 (यु.पी.) मैसर्स रूट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. नकान नं. 448, प्रथम तल, गली नं. 2, पंचसौली कॉलोनी, पार्ट-2, बरतपुर रोड, इन्फ्लेक्स, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा) श्री वीद नारायण कुचक, (निदेशक/गारंटर, मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि.) पुत्र श्री मोहन लाल कुचक, ए-149 फ्लोरेन्स इन्स्टाईट सुशांत लोक, फेज-3, सेक्टर-57, गुडगाँव, हरियाणा-122002 मैसर्स के एस पी इन्टरनेशनल प्रा. लि. (कोर्पोरेट गारंटर, मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि.), एफ-90/33, प्रथम तल, ओखला, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 मैसर्स अमनोद रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्रा. लि. (कोर्पोरेट गारंटर, मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि.), एफ-90/33, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 मैसर्स सप्रभास फूड्स लि. (कोर्पोरेट गारंटर, मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि.), 11 कि.मी., अलीगढ़, दिल्ली की टी रोड, गॉव पार्क/इडा, अलीगढ़, यु.पी.-202001 श्री शंकरनारायण विद्यानगर, (निदेशक मैसर्स के.के. मिल्क प्रोड इंडिया लि.), ए-139, ब्लॉक-ए, आनंद विहार, नई दिल्ली-110092 | गैर खेतीहर भूमि क्षेत्रफल 3950 वर्ग मी., जोकि गाटा नं. 1348 नि.न. गाँव घरबारा, तहसील खैर, अलीगढ़ में स्थित, यह सम्पत्ति रुट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (कोर्पोरेट गारंटर) के नाम पर है। | ₹ 2.62 करोड़ ₹ 26.20 लाख ₹ 2,00,000/- | ₹ 26,09,51,011.99 (भारतीय स्टेट बैंक को ₹ 110,16,95,531.90, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ₹ 34,24,21,804.00, यूनिऑन बैंक ऑफ इंडिया को ₹ 24,82,26,690.72 पंजाब नेशनल बैंक, को ₹ 38,59,31,370.37 और पूर्व में कोर्पोरेट बैंक, को ₹ 22,02,86,241.00 और साथ में अतिरिक्त भूखिया का ब्याज, लागत राशि पर संबिदात्मक दर पर सभी आकस्मिक खर्चें, लागत, प्रभार इत्यादि) | 05.06.2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी: श्री प्रकाश सिंह मो. 9999355060 रिजोल्यूशन एजेंट श्री आरएस यादव +91 9870342878 | अधिक जानकारी के लिए https://www.mstcecommerce.com देखें | 07-06-2023 दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक 10 निमट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित |

मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए ई-नीलामी साइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर NEFT के माध्यम से बोलीकर्ताओं द्वारा ईएमडी को अपने स्वयं के बटुए(wallet) में हस्तांतरित / जमा करना होगा।

नियम व शर्तें-ई-नीलामी "जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायेगी। यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स एमएसटीसी लि. (हेल्पडेस्क नं. 033-2290-1004) के माध्यम से वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध है। निविदा दर्तावेज वेबपोर्टल साइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध है। इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता की सचीवन जानकारी एवं हान के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई प्रभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऋणग्राम, नीलामी में रखी गयी सम्पत्तियों के स्थानित तथा सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले दायों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निमित्त नहीं करती है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व कला समझा जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी भी प्रकार के दायों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई-नीलामी वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी।

ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। 1. <https://www.mstcecommerce.com>, 2. <http://www.sbi.co.in>

सफरकारी ऐक्ट, 2002 के अधीन विक्री हेतु कानूनी नोटिस

तिथि : 17-05-2023, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
सकल शास्त्र सन्देश, पेशवा; शाप-12, जगत शांति कॉम्प्लेक्स गामा 1 ग्रेटर नोड्डा गामा-1
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.04.2023 को हिंदी समाचार पत्र-जसराता (पृष्ठ सं. 13) पर श्रीमती दिव्या शर्मा पति श्री अरिंद कुमार शर्मा के नाम कर्जदार / गारंटर को 60 दिन की नोटिस प्रकाशित किया गया था जिसमें नोटिस जारी दिनांक हिन्दी अनुवाद करने में गलत प्रकाशित हो गया था, जिसको 22.03.2022 के स्थान पर 22.03.2023 भेजा जाए। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।
दिनांक: 17.05.2023 प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank (सफरकारी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सूझा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वेकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुगम हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूँ। अतः आप सभी निम्न वर्णित शर्तियों/गारंटरों को एतद्वारा सूचित किया जाता है और सरफेरी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रक्रिया के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदार की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदार की वसूली के लिए बैंक के द्वारा उपलब्ध सुविधाओं से सहायत किए बिना आप सभी के विरुद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती हैं। कर्जदार का ध्यान, प्रत्येक नोटिस को धुंधला के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| क्र. सं. | ऋणी / बंधककर्ता / गारंटर के नाम | प्रतिभूति / सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना तिथि | बकाया राशि |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | शाखा: बडौल ऋणी/बंधककर्ता- श्री मोहित कुमार जैन पुत्र अनिल कुमार जैन, पता: मकान नं 4/415, गली नं 21, पट्टी चौधन, बडौल (3000)-250611, गारंटर: श्री अनिल जैन पुत्र अमर सिंह, पता: मकान नं 4/415, गली नं 21, पट्टी चौधन, बडौल (3000)-250611. | बंधक आवासीय विलिडिंग के सभी भाग व भूखंड, माप क्षेत्रफल 99.00 वर्ग गज अर्थात् 82.77 वर्ग मीटर, स्थित कच्चा बडौल, पुरानी जैन संस्था के पीछे, पट्टी चौधन, बडौल नगर पुलिसका परियद बडौल की सीमा में, पुराना एवं तहसील बडौल, जिला- बागपत। सम्पत्ति स्वामी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री अमर सिंह जैन। विवरण विवरण के अनुसार संपत्ति- पूर्व: 28 फीट तरपश्चतु प्रेम का मकान, पश्चिम: 23 फीट 6 इंच तरपश्चतु 3 फीट चौड़ी गली, उत्तर: 32 फीट 2 इंच तरपश्चतु 18 फीट चौड़ा रास्ता फिर कोठ, दक्षिण: 26 फीट तरपश्चतु श्री अमर कुमार का मकान। (नोट:- उपरोक्त सम्पत्ति विवरण सच-रजिस्ट्रार ऑफिस बडौल, जिला- बागपत, बडी नं 1, लिन्ड नं 0 4263, पेन नं 0 327-356, क्र0नं 0 14705, दिनांक 12.12.2013 पर पंजीकृत है।) | आपको दिनांक 28.04.2023 को जारी सरफेरी 13(2) का नोटिस जिसमें रु 5,74,079.50 + प्रभावी ब्याज + कानूनी एवं अन्य खर्चें भुगतान करने को कहा गया था वो पंजीकृत रुक डाटा भेज गया था जो कि अग्रिम वापस आ गया | 28.04.2023 को रु 5,74,079.50 + प्रभावी ब्याज + कानूनी एवं अन्य खर्चें |
| एनपीए की तिथि | | | | |
| 13.03.2023 | | | | |
| दिनांक- 17.05.2023 | | | स्थान - मेरठ | |
| | | | | प्राधिकृत अधिकारी |

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआरपीएच L85110UR1993PLC008627
रजि. कार्यालय: प्लॉट नंबर 7, सेक्टर -9, एकीकृत औद्योगिक परिसर, सिडकुल, संत नगर, उष्ण शक्ति नगर, कडपूर, उत्तरांचल प्रदेश 283153
कॉर्पोरेट कार्यालय: 2/8, पवली मंजिल, डब्ल्यू.ए.एस. कीर्ति नगर, नई दिल्ली - 110015
फोन: 05944-250270, 011-45642555, फैक्स: 05944-250289, ई-मेल: cs@archidply.com, वेबसाइट: www.archidply.com

| क्र. | विवरण | स्टैंडअलोन | | | | समेकित | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 31-Mar-23 | 31-Dec-22 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 |
| 1 | परिचालन से कुल आय | 11291.27 | 9457.69 | 41450.18 | 30628.33 | 11409.39 | 9457.69 | 42174.92 | 30628.33 |
| 2 | अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मदों के बाद) | 418.29 | 411.48 | 1651.15 | 1163.48 | 410.92 | 409.69 | 1654.69 | 1161.69 |
| 3 | कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद) | 418.29 | 411.48 | 1651.15 | 1163.48 | 410.92 | 409.69 | 1654.69 | 1161.69 |
| 4 | कर के बाद की अवधि के लिए लाभ / (हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद) | 261.42 | 290.48 | 1222.59 | 853.33 | 256.01 | 288.69 | 1225.13 | 851.54 |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] | 181.32 | 291.68 | 1153.75 | 862.77 | 175.91 | 289.89 | 1156.29 | 860.98 |
| 6 | भुनारोप इन्वेस्टी शेयर पुंजी (अधिकृत मूल्य रु 1/- प्रत्येक) | 1986.50 | 1986.50 | 1986.50 | 1986.50 | 1986.50 | 1986.50 | 1986.50 | 1986.50 |
| 7 | आरक्षित (पुनर्निर्माण रिजर्व को छोड़कर) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | प्रति शेयर राशि (रु. 10/- प्रत्येक का अधिकतम मूल्य) (घातु) और बंध परिचालन के लिए) (नगराजि रु. में) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मूल : कास्ट/ब्लॉक | | 1.32 | 1.46 | 6.15 | 4.30 | 1.29 | 1.45 | 6.17 | 4.29 |

टिप्पणियाँ:
1. आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के उपरोक्त स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 17 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में रिपोर्टें प्रस्तुत कर लिये गयी हैं। ऑडिट रिपोर्टें सी.एस. (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत आवश्यक दृष्टि परिणामों को कंपनी के सांख्यिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूरा कर लिया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षा के उरच पर एक अलग रिपोर्ट जारी की है।
2. कंपनी के उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (आईएनएसआईएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को उन वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुसार बताने के लिए जहां आवश्यक हो, पुनर्निर्माण/पुनर्गठित किया गया है।
4. परिणामों का पूरा प्राकृतिक एक्सप्लेन (www.bseindia.com और www.ncindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.archidply.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ता /- राजीव शर्मा प्रबंध निदेशक डीआरएच : 01412917

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED
CIN: L65921DL1993PLC377542
Registered Address: 516, Sunega Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 110058
Statement of audited financials results for the quarter and year ended March 31, 2023
(All amounts are in INR lacs, except otherwise stated)

| Particulars | Quarter ended | | Year ended | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 31-Mar-23 | 31-Dec-22 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 |
| | Audited | Unaudited | Audited | Audited |
| Revenue from operations | | | | |
| (i) Dividend income | 7.93 | 7.93 | 12.66 | 27.98 |
| (ii) Net gain on fair value changes | (37.65) | 254.21 | (70.83) | 106.45 |
| I Total revenue from operations | (29.72) | 262.14 | (58.17) | 134.43 |
| II Other income | - | - | 0.01 | 0.05 |
| III Total income (I+II) | (29.72) | 262.14 | (58.16) | 134.48 |
| Expenses | | | | |
| (i) Finance costs | - | - | - | 0.99 |
| (ii) Fees and commission expense | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 4.60 |
| (iii) Employee benefits expense | 4.59 | 4.24 | 10.95 | 22.58 |
| (iv) Depreciation and amortization expense | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.99 |
| (v) Other expenses | 4.74 | 9.87 | 6.29 | 25.50 |
| IV Total expenses | 10.75 | 15.52 | 18.62 | 53.67 |
| V Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV) | (40.47) | 246.62 | (76.78) | 80.81 |
| VI Exceptional items | - | - | - | - |
| VII Profit/(Loss) before tax (V-VI) | (40.47) | 246.62 | (76.78) | 80.81 |
| Tax expenses | | | | |
| (i) Current tax | 13.56 | - | (12.78) | 13.56 |
| (ii) MAT Credit Entitlement AY 2023-24 | (13.56) | - | - | (13.56) |
| (iii) Adjustment of tax relating to earlier years | 0.93 | - | (2.38) | 0.99 |
| (iv) Deferred tax | (5.66) | 37.44 | 7.57 | 7.75 |
| VIII Total tax expenses | (4.73) | 37.44 | (7.59) | 8.74 |
| IX Profit for the period (VII-VIII) | (35.74) | 209.18 | (69.19) | 72.07 |
| Other comprehensive income | | | | |
| (i) Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years: | | | | |
| - Remeasurement of post employment benefit obligations | 0.01 | - | (0.05) | 0.01 |
| (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss | - | - | 0.01 | - |
| X Total other comprehensive income | 0.01 | - | (0.04) | 0.01 |
| XI Total comprehensive income for the year (IX+X) | (35.73) | 209.18 | (69.23) | 72.08 |
| Basic / Diluted Earnings Per Share (FV of INR 10/- each) | | | | |
| (i) Basic* | (0.36) | 2.09 | (0.69) | 0.72 |
| (ii) Diluted* | (0.36) | 2.09 | (0.69) | 0.72 |

See accompanying notes to financial results.
* Earning Per Share is not annualized for quarterly results.
NOTES:
1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 17, 2023.
2. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
3. As per Indian Accounting Standards (IndAS) 108 "Operating Segment", the company's business falls within a single business segment.
4. Figures for the previous quarters / periods have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to correspond with the current period's disclosures.
For and on behalf of board of directors of Som Datt Finance Corporation Limited
Sd/-
Mrs Vijaying Rathi
Managing Director
DIN No: 00042731
Place : Gurugram
Date : May 17, 2023

ई-नीलामी की तिथि एवं समय **07-06-2023** को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 निमट का असंमित विस्तार। सभी सम्पत्तियों हेतु न्यूनतम बोली वृद्धि राशि अंकित है।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

(IATF 16949 Company)
Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru – 570 018, Karnataka
CIN : L51909KA1981PLC004198

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Amount in Rupees Millions, except per share data)

| Sl. No. | Particulars | For the Three months ended | | | For the year ended | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.03.2023 (Audited) | 31.12.2022 (Unaudited) | 31.03.2022 (Audited) | 31.03.2023 (Audited) | 31.03.2022 (Audited) |
| 1 | Total Income from operations | 6,942.98 | 6,571.29 | 5,527.23 | 23,286.20 | 14,948.78 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | 680.32 | 679.42 | 515.54 | 2,180.95 | 1,000.50 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 680.32 | 679.42 | 515.54 | 2,180.95 | 1,000.50 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 508.14 | 506.83 | 388.44 | 1,620.29 | 743.58 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 504.83 | 503.41 | 385.56 | 1,609.30 | 738.08 |
| 6 | Equity Share Capital | 151.12 | 151.12 | 151.12 | 151.12 | 151.12 |
| 7 | Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | | | | 7,442.11 | 6,059.49 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations) | | | | | |
| | Basic and Diluted | 33.62 | 33.54 | 25.70 | 107.22 | 49.20 |

Notes:

- The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on May 16, 2023 and approved by the Board of Directors at the meeting held on May 16, 2023.
- The Board of Directors at its meeting held on May 16, 2023 has recommended final dividend of Rs. 32/- Per equity share of Rs. 10 each (320%).
- The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results for the year ended 31-03-2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the stock exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.autoaxle.com.

For and on behalf of the Board of Directors of
Automotive Axles Limited
Nagaraja Sadashiva Murthy Gargeshwari
Whole Time Director
DIN: 00839616

Place : Pune
Date : May 16, 2023

M/S MOONRIVER RESORTS PRIVATE LTD (IN LIQUIDATION)

Reg Office-As per MCA Records - "Vacha Loft", Flat No: 5, River View Apartments, Yacht Club Enclave, Kondunthy, Cochin Kerala 682013 India

Sale Advertisement

Land Property and partially constructed resort building situated in Pallivasa village, Devikulam Taluk in Idukki District owned by the company M/s Moonriver Resorts Private Limited (in liquidation) is under sale as per the Rules and Regulations of IBC 2016.
For more details write to cajasinose@gmail.com,
Ph:+91 7760031329, 9526253635

Sd/-
CA Jasin Jose

Dated 17/05/2023
Place-Aluva

Liquidator-M/s Moonriver Resorts Pvt Ltd
IBBIReg.No:IBBI/PA-001/IP-P00695/2017-2018/11225

SALE NOTICE FOR ASSETS OF HINDUSTAN PAPER CORPORATION LIMITED- In Liquidation

(A Company under Liquidation vide Honble NCLT order dated 02nd May 2019)
Registered Office of the Company: South Tower, 4th Floor, Scope Minar Complex, Laxminagar, District Centre, New Delhi-110092.

Public Announcement for e-auction to be held on 20.06.2023 from 12:00 noon till 04:00 PM (With unlimited extension of 5 minutes each) for sale of following assets of Hindustan Paper Corporation Limited-In Liquidation under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (Refer E-auction Process document for details) on AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS) THROUGH E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). The sale of assets shall be done by the undersigned through the e-auction platform <https://mcauction.auctiontiger.net/>

| Location / Assets | Address/Area | Lot | Reserve Price (INR) | Incremental Bid (INR) | EMD (INR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 1,13,62,231 Equity Shares of Rs. 100 each of Nagaland Pulp & Paper Company Limited | Nagaland Pulp & Paper Company Limited (CIN: U21012NL1971SGC001349) having its registered office at PAPER NAGARA, P.O. - TULI, DIST - MOKOKCHUNG NL 798623 | Lot1 | 3,16,24,020 | 4,00,000 | 30,00,000 |
| Maruti Suzuki Swift Dezire-LXI WB02AJ 8669 Petrol, Registration Date: 11.07.2016 Tax Valid up to: 10.07.2021 | HC BLOCK, Near Calcutta Heart Clinic & Hospital, IC Road, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal, 700106 | Lot2 | 1,59,651 | 5,000 | 15,000 |

Last date for receipt of Expression of Interest (EOI) 02.06.2023 by 11:59 PM. The auction will be cancelled in case no EOI is received by 02.06.2023 by 11:59 pm. The last date for payment of EMD is 17.06.2023 by 5PM. The E-auction information document and General Terms and conditions of online auction sale are also available on website <https://mcauction.auctiontiger.net/>. All communication to be addressed to kuverma@gmail.com liquidation.hpcl@gmail.com.

Kuldeep Verma
Liquidator of Hindustan Paper Corporation Limited
IBBI Regn No-IBBI/PA-001/IP-P00014/2016-17/10038
Registered Address: 46 B.B Ganguly Street, 5th Floor Unit No.-501, Kolkata-700012
AFA valid till-11.12.2023
E: kuverma@gmail.com
Phone: +91 98360 77900
Date: 18.05.2023
Place: Kolkata

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SUPREME VASAI BHIWANDI TOLLWAYS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Name of corporate debtor | Supreme Vasai Bhiwandi Tollways Private Limited |
| 2. Date of incorporation of corporate debtor | 01/05/2013 |
| 3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | R/o/Delhi |
| 4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor | U48200HR2013PTCO48979 |
| 5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor | 5/5, 5th Floor, ABW Tower, IFFCO Chok, MG Road, Gurgaon Haryana 122002 IN |
| 6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor | 22-12-2022 |
| 7. Estimated date of closure of insolvency resolution process | 19-05-2023 |
| 8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional | Rajesh Lilhala, Registration No. IBBI/PA-001/IP-P00525/2017-18/10950 |
| 9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board | 11, Crooked Lane, Kolkata-700069, West Bengal, India Email: lilhala@gmail.com |
| 10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional | 11, Crooked Lane, Kolkata-700069, West Bengal, India Email: lilhala@gmail.com |
| 11. Last date for submission of claims | 25.05.2023 (reason as stated in para 7) |
| 12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (1A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional | NA |
| 13. Names of insolvency professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class) | NA |
| 14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at: | (a) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) NA |

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **Supreme Vasai Bhiwandi Tollways Pvt. Ltd.** on 22.12.2022.

The creditors of **Supreme Vasai Bhiwandi Tollways Pvt. Ltd.**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 25.05.2023 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class (NA) in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Rajesh Lilhala
Interim Resolution Professional of
Supreme Vasai Bhiwandi Tollways Pvt. Ltd.
IBBI/PA-001/IP-P00525/2017-2018/10950
AFA Valid till 28/12/2023

Date: 16/05/2023
Place: Kolkata

THE BUSINESS DAILY.

FOR DAILY BUSINESS.

financialexpress.com

SILVERPOINT INFRA TECH LIMITED

Registered Office : "Ananta Bhawan", 94 Vivekanand Nagar, Andul Road, 3rd Floor, Room No. 301, Near West Bank Hospital, P.O- Podrah, Howrah -711019
Phone : +91-82320 62881
Email Id : info@silverpointinfotech.com
Website : www.silverpointinfotech.com

Notice of Board Meeting

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, May 25, 2023 inter-alia, to approve the audited financial results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2023.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.silverpointinfotech.com> and may also be accessed on the Stock Exchange websites at <http://www.bseindia.com>.

Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders" was closed from April 03, 2023 till 48 hours from declaration of the audited financial results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2023. The Trading Window will be opened from May 27, 2023.

By order of the Board
For Silverpoint Infotech Limited
Sd/
Puja Jain
Company Secretary
Date : 17.05.2023
Place : Howrah

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LIMITED

REGD OFF: 72 Telipada Kaneri Bhiwandi Thane 421302
Email: Compliance@swadeshiglobal.com
Website: www.swadeshiglobal.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that, in terms of Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the meeting of the Board of Directors of our Company is scheduled to be held on Friday, 26th May, 2023, at the Registered Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and Financial year ended 31st March, 2023.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and amendments made thereunder, read with Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the trading window was closed from 01st April, 2023 till forty-eight hours after the date of declaration of results for the Employees of the Company including Designated Persons and their immediate relatives.

This information is also available on Company's website and also on stock exchange website at www.bseindia.com.

For Swadeshi Industries and Leasing Limited
Sd/-
Gaurav Jain
Managing Director
(DIN: 06794973)
Place: Mumbai
Date: 17th May, 2023

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक सिमि रल्ल कंपनी-1, भारत सरकार का उद्योग)

NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)
CIN : U40101ML1976GOI001658

Registered Office: Brookland Compound, Lower New Colony, Shillong - 793003, Meghalaya

Annexure I-A

Financial results of North Eastern Electric Power Corporation Limited for the quarter ended 31st March 2023

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations]

₹ in lakhs

| Sl. No. | Particulars | STANDALONE FINANCIAL RESULTS | | | CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | Quarter ended 31 st Mar' 2023 (Unaudited) | Corresponding quarter ended 31 st Mar' 2022 (Unaudited) | Previous year ended 31 st Mar' 2022 (Audited) | Quarter ended 31 st Mar' 2023 (Unaudited) | Corresponding quarter ended 31 st Mar' 2022 (Unaudited) | Previous year ended 31 st Mar' 2022 (Audited) |
| 1 | Total Income | 102997.93 | 69186.01 | 330196.67 | 102997.93 | 69186.01 | 330196.67 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items #) | (12635.72) | (14569.58) | 43345.29 | (12636.06) | (14569.82) | 43344.30 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #) | (12635.72) | (14569.58) | 43345.29 | (12636.06) | (14569.82) | 43344.30 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #) | (6950.98) | (8969.35) | 21229.37 | (6951.22) | (8969.51) | 21228.69 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (7809.67) | (9913.18) | 19923.21 | (7809.91) | (9913.34) | 19922.53 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital | 360981.04 | 360981.04 | 360981.04 | 360981.04 | 360981.04 | 360981.04 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 297602.77 | 294942.86 | 294942.86 | 297952.45 | 295293.83 | 295293.83 |
| 8 | Securities premium Account | | | | | | |
| 9 | Net worth | 658583.81 | 655923.90 | 655923.90 | 658933.49 | 656274.87 | 656274.87 |
| 10 | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt | 713117.72 | 750048.97 | 750048.97 | 713117.72 | 750048.97 | 750048.97 |
| 11 | Outstanding Redeemable Preference Shares | | | | | | |
| 12 | Debt Equity Ratio | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.14 |
| 13 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | | | | |
| | 1. Basic: | (0.19) | (0.25) | 0.59 | (0.19) | (0.25) | 0.59 |
| | 2. Diluted: | (0.19) | (0.25) | 0.59 | (0.19) | (0.25) | 0.59 |
| 14 | Capital Redemption Reserve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Debenture Redemption Reserve | 65054.17 | 65054.17 | 65054.17 | 65054.17 | 65054.17 | 65054.17 |
| 16 | Debt Service Coverage Ratio | 0.35 | 0.62 | 1.18 | 0.35 | 0.62 | 1.18 |
| 17 | Interest Service Coverage Ratio | 1.66 | 1.47 | 3.13 | 1.66 | 1.47 | 3.13 |

Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules, whichever is applicable

- The above is an extract of the detailed format of **Quarterly** financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
- Items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures are as follows:

| Sl. No. | Particulars | STANDALONE FINANCIAL RESULTS | | | CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS | | |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | Quarter ended 31 st Mar' 2023 (Unaudited) | Corresponding quarter ended 31 st Mar' 2022 (Unaudited) | Previous year ended 31 st Mar' 2022 (Audited) | Quarter ended 31 st Mar' 2023 (Unaudited) | Corresponding quarter ended 31 st Mar' 2022 (Unaudited) | Previous year ended 31 st Mar' 2022 (Audited) |
| (a) | Current ratio | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| (b) | Long term debt to working capital | (36.20) | 207.21 | 207.21 | (36.20) | 207.21 | 207.21 |
| (c) | Bad debts to Account receivable ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (d) | Current liability ratio | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| (e) | Total debts to total assets | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
| (f) | Debtors turnover | 6.36 | 5.10 | 5.10 | 6.36 | 5.10 | 5.10 |
| (g) | Inventory turnover | 33.00 | 22.41 | 22.41 | 33.00 | 22.41 | 22.41 |
| (h) | Operating margin(%) | 0.40 | (1.59) | 31.66 | 0.40 | (1.59) | 31.66 |
| (i) | Net profit margin(%) | (6.77) | (14.83) | 6.62 | (6.77) | (14.83) | 6.62 |

- The above results have been reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors in their meeting held on 16.05.2023 and recommended to the Board of Directors of the Company for their approval. The Board of Directors in their meeting held on 16.05.2023 has approved the same. Further the results has also been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- Electricity generation is the principal activity of the Corporation.
- The Corporation has power stations located within the region and therefore geographical segments are inapplicable.
- Sale of energy is accounted for based on tariff approved by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). In case of power stations where final tariff is yet to be notified/approved by the CERC, sale of energy is provided for on the basis of provisional rate considering the Annual Fixed Cost submitted before the CERC through tariff petition as per the principles enunciated in the CERC (Terms & Conditions of Tariff) Regulations 2019. For the projects for which neither CERC approved tariff is available nor petition pending with the CERC, sale of energy is accounted for on the basis of tariff as agreed by the beneficiaries.
- Total income from operations during the quarter includes Other Income amounting to ₹306.98 lakhs and ₹8697.51 lakhs (previous period)
- Formula used for computation of Ratio :
a. "Debt Service Coverage Ratio" (DSCR) = [Profit before interest, Depreciation and Tax]/ (Principal repayment + Interest)
b. "Interest Service Coverage Ratio" (ISCR) = [Profit before interest, Depreciation and Tax]/ Interest
Amount of Interest considered pertains to loans taken for Operational Power Stations only.

For NEEPCO Limited
B. Maharana
DIN 09263864
Director (Finance)

Place : New Delhi
Date : 16.05.2023

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

CIN: L65921DL1993PLC377542
Registered Address: 516, Sunjea Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 110058
Statement of audited financials results for the quarter and year ended March 31, 2023
(All amounts are in INR lacs, except otherwise stated)

| Particulars | Quarter ended | | Year ended | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 31-Mar-23 Audited | 31-Dec-22 Unaudited | 31-Mar-22 Audited | 31-Mar-22 Audited |
| Revenue from operations | | | | |
| (i) Dividend income | 7.93 | 7.93 | 12.66 | 27.98 |
| (ii) Net gain on fair value changes | (37.65) | 254.21 | (70.83) | 106.45 |
| I Total revenue from operations | (29.72) | 262.14 | (58.17) | 134.43 |
| II Other income | - | - | 0.01 | 0.05 |
| III Total Income (I+II) | (29.72) | 262.14 | (58.16) | 134.48 |
| Expenses | | | | |
| (i) Finance costs | - | - | - | 0.99 |
| (ii) Fees and commission expense | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 4.60 |
| (iii) Employee benefits expense | 4.59 | 4.24 | 10.95 | 22.58 |
| (iv) Depreciation and amortization expense | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.99 |
| (v) Other expenses | 4.74 | 9.87 | 6.29 | 25.50 |
| IV Total expenses | 10.75 | 15.52 | 18.62 | 53.67 |
| V Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV) | (40.47) | 246.62 | (76.78) | 80.81 |
| VI Exceptional items | | | | |
| VII Profit/(Loss) before tax (V-VI) | (40.47) | 246.62 | (76.78) | 80.81 |
| Tax expenses | | | | |
| (i) Current tax | 13.56 | - | (12.78) | 13.56 |
| (ii) MAT Credit Entitlement AY 2023-24 | (13.56) | - | - | (13.56) |
| (iii) Adjustment of tax relating to earlier years | 0.93 | - | (2.38) | 0.99 |
| (iv) Deferred tax | (5.66) | 37.44 | 7.57 | 7.75 |
| VIII Total tax expenses | (4.73) | 37.44 | (7.59) | 8.74 |
| IX Profit for the period (VII-VIII) | (35.74) | 209.18 | (69.19) | 72.07 |
| Other comprehensive income | | | | |
| (i) Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years: | | | | |
| - Remeasurement of post employment benefit obligations | 0.01 | - | (0.05) | 0.01 |
| (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss | - | - | 0.01 | - |
| X Total other comprehensive income | 0.01 | - | (0.04) | 0.01 |
| XI Total comprehensive income for the year (IX+X) | (35.73) | 209.18 | (69.23) | 72.08 |
| Basic / Diluted Earnings Per Share (FV of INR 10/- each) | | | | |
| (i) Basic* | (0.36) | 2.09 | (0.69) | 0.72 |
| (ii) Diluted* | (0.36) | 2.09 | (0.69) | 0.72 |

See accompanying notes to financial results.

* Earning Per Share is not annualized for quarterly results.

NOTES:

- The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 17, 2023.
- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
- As per Indian Accounting Standards (Ind AS) 108 "Operating Segment", the company's business falls within a single business segment.